

डेली करेंट अफेयर्स क्विज - 08 मार्च 2023

प्रश्न -1

निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय पनडुब्बी पहली बार इंडोनेशिया में डॉक की गई थी?

- A) INS अरिहंत
- B) INS शाल्की
- C) INS वागीर
- D) INS सिंधुकेसरी

सही उत्तर: D

हाल ही में पहली बार एक भारतीय पनडुब्बी इंडोनेशिया में डॉक की गई। 3,000 टन वजनी डीजल-इलेक्ट्रिक पनडुब्बी INS सिंधुकेसरी सुंडा जलडमरूमध्य से गुजरने के बाद 'पहली बार परिचालन कार्याकल्प' के लिए जकार्ता पहुंची।

प्रश्न-2

सुप्रीम कोर्ट में निर्णयों के तटस्थ उद्धरण या 'न्यूट्रल साइटेशन' की घोषणा _____ द्वारा की गई थी।

- A) केदार मिश्रा
- B) जगदीश सिंह खेहर
- C) डी.वाई चंद्रचूड़
- D) दीपक मिश्रा

सही उत्तर: C

मुख्य न्यायाधीश डी.वाई चंद्रचूड़ ने कहा कि उच्चतम न्यायालय ने अपने सभी फैसलों के लिए न्यूट्रल साइटेशन पेश किया है। CJJ ने उम्मीद जताई कि उच्च न्यायालय भी अपने फैसलों के लिए न्यूट्रल साइटेशन का पालन करेंगे। दिल्ली, केरल और मद्रास उच्च न्यायालयों ने पहले ही न्यूट्रल साइटेशन पेश किया है।

डेली करेंट अफेयर्स क्विज - 08 मार्च 2023

प्रश्न-3

निम्नलिखित में से किस देश को हाल ही में चीन से 700 मिलियन अमरीकी डालर का फंड प्राप्त हुआ है?

- A) भूटान
- B) भारत
- C) नेपाल
- D) पाकिस्तान

सही उत्तर: D

पाकिस्तान को हाल ही में चीन से 700 मिलियन अमरीकी डालर का फंड मिला है। पाकिस्तान के वित्त मंत्री इशाक डार ने कहा है कि पाकिस्तान को अपने सहयोगी चीन से 1.3 बिलियन और मिलेंगे ताकि वह तेजी से घटते विदेशी मुद्रा भंडार को बढ़ा सके।

प्रश्न-4

निम्नलिखित में से कौन सी राज्य सरकार देश की पहली मरीना या एक नौका बेसिन विकसित कर रही है?

- A) गुजरात
- B) कर्नाटक
- C) केरल
- D) ओडिशा

सही उत्तर: B

कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा है कि राज्य सरकार कर्नाटक में तटीय पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए उडुपी जिले के ब्यंदूर में देश की पहली मरीना या नौका बेसिन का निर्माण करेगी।

डेली करेंट अफेयर्स क्विज - 08 मार्च 2023

प्रश्न-5

निम्नलिखित में से किस राज्य में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शबरी माता जन्म जयंती के अवसर पर आयोजित 'कोल जनजाति महाकुंभ' को संबोधित किया?

- A) छत्तीसगढ़
- B) मध्य प्रदेश
- C) महाराष्ट्र
- D) ओडिशा

सही उत्तर: B

केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने 24 फरवरी 2023 को सतना, मध्य प्रदेश में शबरी माता जन्म जयंती के अवसर पर आयोजित 'कोल जनजाति महाकुंभ' को संबोधित किया।

प्रश्न-6

निम्नलिखित में से किस राज्य में एलोरा अजंता अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव 2023 का आयोजन किया गया था?

- A) मध्य प्रदेश
- B) महाराष्ट्र
- C) ओडिशा
- D) तमिलनाडु

सही उत्तर: B

महाराष्ट्र के औरंगाबाद में 25 फरवरी से तीन दिवसीय एलोरा अजंता अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव 2023 का आयोजन किया गया। केन्द्रीय वित्त राज्य मंत्री डॉ भागवत कराड ने महोत्सव का उद्घाटन किया।

डेली करेंट अफेयर्स क्विज - 08 मार्च 2023

प्रश्न-7

निम्नलिखित में से किसने सिक्किम में 19वें वार्षिक CPA सम्मेलन का उद्घाटन किया?

- A) ओम बिड़ला
- B) रामनाथ कोविंद
- C) सुमित्रा महाजन
- D) वैकैया नायडू

सही उत्तर: A

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने गंगटोक, सिक्किम में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ (CPA) भारत क्षेत्र के 19वें वार्षिक जोन III सम्मेलन का उद्घाटन किया। बिरला ने कहा कि CPA भारत क्षेत्र का जोन III एक महत्वपूर्ण मंच है जहां पूर्वोत्तर क्षेत्र के विधायक कई विषयों और मुद्दों पर चर्चा करते हैं और आम समाधान पर पहुंचते हैं।

प्रश्न-8

निम्नलिखित में से किस राज्य की टीम ने 13वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती?

- A) केरल
- B) मध्य प्रदेश
- C) ओडिशा
- D) पश्चिम बंगाल

सही उत्तर: B

हॉकी मध्य प्रदेश ने फाइनल में हॉकी महाराष्ट्र को 5-1 से हराकर आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में 13वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2023 चैंपियनशिप जीती।

डेली करेंट अफेयर्स क्विज - 08 मार्च 2023

प्रश्न-9

निम्नलिखित में से किसने फीफा फुटबॉल अवार्ड्स 2022 में फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता?

- A) एमिलियानो मार्टिनेज
- B) करीम बेंजेमा
- C) कीलियन एम्बाप्पे
- D) लियोनेल मेसी

सही उत्तर: D

कतर में दिसंबर में अर्जेंटीना के साथ अपना पहला विश्व कप खिताब जीतने के बाद लियोनेल मेसी को फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया था। इस 35 वर्षीय फारवर्ड ने विश्व कप फाइनल में दो गोल किए थे जिसे अर्जेंटीना ने जीता था।

प्रश्न-10

निम्नलिखित में से किसने स्पेनिश पैरा-बैडमिंटन इंटरनेशनल टूर्नामेंट में पुरुष एकल में रजत पदक जीता?

- A) मोंगखोन बनसेन
- B) प्रमोद भगत
- C) सुहास एल.वाई
- D) सुखांत कदम

सही उत्तर: B

ओडिशा के प्रमोद भगत ने स्पेनिश पैरा-बैडमिंटन इंटरनेशनल टूर्नामेंट में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। उन्होंने स्पेन के विक्टोरिया में लेवल द्वितीय टूर्नामेंट की दो स्पर्धाओं में दो पदक जीते। प्रमोद को एकल स्पर्धा में रजत पदक से संतोष करना पड़ा क्योंकि उन्हें फाइनल में इंग्लैंड के डेनियल बेथेल के खिलाफ 18-21, 08-21 से हार का सामना करना पड़ा।